

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2024 — श्रावण 7, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-64/2024/18.— छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत चिखलाकसा, जिला बालोद (छ.ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

- नगर पंचायत चिखलाकसा, जिला बालोद (छ.ग.) को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
- यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	शहीद गैंग सिंह वार्ड
2	गुरुघासी दास वार्ड
3	अटल वार्ड
4	हनुमान वार्ड
5	शहीद वीर नारायण वार्ड
6	शिव वार्ड
7	सुभाषचन्द्र वार्ड
8	जवाहर लाल वार्ड
9	लाल बहादुर शास्त्री
10	इंदिरा कॉलोनी वार्ड
11	मथुरा नगर वार्ड
12	तिलक नगर वार्ड
13	सरदार पटेल वार्ड
14	स्वामी विवेकानंद वार्ड
15	आजाद नगर वार्ड

नगर पंचायत चिखलाकसा के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 01 :- शहीद गैद सिंह वार्ड

- उत्तर — चमरू राम साहू के घर से प्रदीप गंगबोईर के पोल्ट्री फॉर्म तक ।
 पूर्व — प्रदीप गंगबोईर के पोल्ट्री फॉर्म से थान सिंह के घर तक ।
 दक्षिण — थान सिंह के घर से आयुर्वेदिक अस्पताल से होते हुए हाई स्कूल तक ।
 पश्चिम — शास. हाई स्कूल से चमरू राम साहू के घर तक ।

वार्ड क्रमांक 02 :- गुरु घासीदास वार्ड

- उत्तर — कारुटोला रोड रेल्वे लाईन से होते हुए पुष्पा मेश्राम के घर तक ।
 पूर्व — पुष्पा मेश्राम के घर से फूलसिंह सोरी के दुकान एवं कारुटोला मार्ग पार करते हुए ब्लू स्टार पेट्रोल पम्प, नाला पार करके मुख्य मार्ग में उत्तमचंद जैन के घर तक ।
 दक्षिण — उत्तम चंद के घर से सीमेंट कांक्रीट रोड के किनारे किनारे होते हुए शिवदास काम्बले के घर तक ।
 पश्चिम — शिवदास काम्बले के घर से रेल्वे लाईन के किनारे किनारे कृषि भूमि होते हुए कारुटोला रोड में रेल्वे लाईन तक ।

वार्ड क्रमांक 03 :- अटल वार्ड

- उत्तर — मेन रोड के पास स्थित मुक्तिधाम के पीछे नाला के किनारे किनारे होते हुए गैदू हल्बा के घर तक ।
 पूर्व — गैदू हल्बा के घर से खसरा नम्बर 323 कृषि भूमि होते हुए नगर पंचायत चिखलाकसा मार्ग पार करके नाला किनारे किनारे होते हुए पशीने पोल्ट्री फार्म तक ।
 दक्षिण — पशीने पोल्ट्री फार्म से राम इंजीनियर के घर से होते हुए सिद्धि विनायक खाद बीज दुकान तक ।
 पश्चिम — मेन रोड में सिद्धि विनायक खाद बीज दुकान से ज्योति हास्पिटल होते हुए बालोद मार्ग के किनारे एवं अटल चौक पार करके मेन रोड के पास स्थित मुक्ति धाम तक ।

वार्ड क्रमांक 04:- हनुमान वार्ड

- उत्तर — कमलेश लटिया के घर से खसरा नम्बर 426 कृषि भूमि होते हुए गली पार करके जगराम उर्वशा के घर होते हुए रमेशचंद जैन के घर तक ।
 पूर्व — रमेशचंद जैन के घर तक होते हुए संतोष कुमार देवांगन के घर तक ।
 दक्षिण — संतोष कुमार देवांगन के घर से चिखलाकसा बस्ती में महेन्द्र सिंह ब्रोका के घर से होते हुए स्थित कला मंच के पास हल्बा भवन तक ।
 पश्चिम — हल्बा भवन से हनुमान मंदिर नगर पंचायत काम्पलेक्स होते हुए नाला के पास खसरा नम्बर 340 से 426 तक कमलेश लटिया के घर तक ।

वार्ड क्रमांक 05 :- शहीद वीर नारायण वार्ड

- उत्तर — धनजय आर्य के घर से खसरा नम्बर 460 से खसरा नम्बर 1397 तक कृषि भूमि होते हुए नया तालाब के उस पार जगे सिंह टेकाम के घर तक ।
 पूर्व — जगेसिंह टेकाम के घर से खसरा नम्बर 860 से 1021 तक कृषि भूमि होते हुए कृपाराम उर्वशा के घर तक ।
 दक्षिण — कृपाराम उर्वशा के घर से शिव मंदिर के पास देवीलाल साहू घर तक ।
 पश्चिम — देवीलाल साहू घर से होते हुए झुमुक कोरेटी के घर से धनजय आर्य के घर तक ।

वार्ड क्रमांक 06:- शिव वार्ड

- उत्तर — गर्वमेन्ट स्कूल से सीमेन्ट कांक्रीट रोड के किनारे किनारे संतोष किराना दुकान होते हुए नंद कुमार कोरेटी के घर तक ।
 पूर्व — नंद कुमार कोरेटी के घर गली होते हुए आकाश किराना तक ।
 दक्षिण — आकाश किराना से डब्लू बी.एम.रोड के किनारे होते हुए संकुल केन्द्रके पास स्व. रामचंद मसिया के घर तक ।
 पश्चिम — रामचंद मसिया घर के घर से गर्वमेन्ट स्कूल तक ।

वार्ड क्रमांक 07 :- सुभाषचन्द्र वार्ड

- उत्तर — नाला किनारे बरन सिंह खरांशु घर से शास.नवीन कन्या प्रा.शाला से होते हुए गंगाराम धुवंशी के घर तक।
- पूर्व — गंगाराम धुवंशी के घर से जगदीश प्रसाद के घर तक।
- दक्षिण — जगदीश प्रसाद के घर से हाट बाजार होते हुए चंद्रशेखर कोठारी के घर तक।
- पश्चिम — चंद्रशेखर कोठारी के घर से खसरा नंबर 334 एवं 336 होते हुए नाला किनारे बरन सिंह खरांशु के घर तक।

वार्ड क्रमांक 08:- जवाहरलाल वार्ड

- उत्तर — अमरजीत सैनी के घर से खसरा नम्बर 1360 से 1497 तक कृषि भूमि नाला के किनारे होते हुए बारसाटोला में कृष्णा यादव के घर तक।
- पूर्व — बारसाटोला में कृष्णा यादव के घर से खसरा नं. 1352 से खसरा नं. 1227 तक गैदलाल शर्मा के घर तक।
- दक्षिण — गैदलाल शर्मा के घर से लेकर बी0एस0पी0 टू डी क्वार्टर न023 के सामने सुरजीत कौर के घर तक।
- पश्चिम — सुरजीत कौर के घर से खसरा नं. 1252/4 से खसरा नं. 1223 अमरजीत सैनी के घर तक।

वार्ड क्रमांक 09 :- लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर — ईदगाह कब्रिस्तान से लेकर खसरा नम्बर 1220 से खसरा नम्बर 1221 में क्रिश्चियन कब्रिस्तान तक।
- पूर्व — क्रिश्चियन कब्रिस्तान से लेकर खसरा नम्बर 1222 से खसरा नम्बर 1228 में कौशिल्या बाम्बेश्वर के घर तक।
- दक्षिण — कौशिल्या बाम्बेश्वर के घर से बी0एस0पी0 सेक्टर रोड में गोवर्धन मोटवानी के घर तक।
- पश्चिम — गोवर्धन मोटवानी के घर से लेकर ईदगाह खसरा नं. 1220 तक।

वार्ड क्रमांक 10:- इंदिरा कालोनी वार्ड

- उत्तर — शासकीय हास्पिटल, चिखलाकसा से महिला बाल विकास विभाग भवन के से होते हुए जितेन्द्र शर्मा के घर तक।
- पूर्व — जितेन्द्र शर्मा के घर से एस.सी.बागची के घर से होते हुए सारू पिस्दा के घर तक।
- दक्षिण — सारू के घर से संतोखी प्रसाद के घर तक।
- पश्चिम — संतोखी प्रसाद के घर से ज्योति चर्च से होते हुए शासकीय हास्पिटल चिखलाकसा तक।

वार्ड क्रमांक 11 :- मथुरा नगर वार्ड

- उत्तर — आदर्श गौठान से पुरुषोत्तम पटेल के घर से होते हुए अनिता उपाध्याय के घर तक।
- पूर्व — अनिता उपाध्याय के घर से नैना ब्यूटी पार्लर एवं अखिलेश जैन के खेत से होते हुए जगताराम पटेल के घर तक।
- दक्षिण — जगताराम पटेल के घर से अंकालू राम के खेत से होते हुए रोड पार कर सुधू राम के घर तक।
- पश्चिम — सुधू के घर से होते हुए हनुमान मंदिर नाला किनारे होते हुए पोषण यादव घर से आदर्श गौठान तक।

वार्ड क्रमांक 12 :- तिलक नगर वार्ड

- उत्तर — मेन रोड में स्थित पटेल टिम्बर्स से गली होते हुए बृज लाल बिहारी के घर तक।
- पूर्व — बृज लाल बिहारी के घर से खसरा नं. 484 से 494 तक, होते हुए बिन्दु तुली के घर तक।
- दक्षिण — बिन्दु तुली के घर से गली मार्ग होते हुए एम.के.रेड्डी के दुकान तक।
- पश्चिम — एम.के.रेड्डी के दुकान से लेकर मेन रोड में स्थित पटेल टिम्बर्स तक।

वार्ड क्रमांक 13 :- सरदार पटेल वार्ड

- उत्तर — एस.बी.आई. ए.टी.एम से सेवा ओबराय के बाड़ी होते हुए अत्तर सिंह के घर तक।
- पूर्व — अत्तर सिंह के घर से खसरा नं. 692 से 683 तक कृषि भूमि होते हुए मनोरमा बाई पटेल के घर तक।
- दक्षिण — मनोरमा बाई पटेल के घर से गली होते हुए मेन रोड में मौजेश भवन तक।
- पश्चिम — मेन रोड में मौजेश भवन से एस.बी.आई. ए.टी.एम तक।

वार्ड क्रमांक 14:- स्वामी विवेकानंद वार्ड

- उत्तर — मर्सी जॉर्ज के घर से पाठक खटाल तक।
 पूर्व — पाठक खटाल से होते हुए पुरोबी वर्मा के घर तक।
 दक्षिण — पुरोबी वर्मा के घर से निर्मला शुक्ला के घर से होते हुए मारथोमा चर्च तक।
 पश्चिम — मारथोमा चर्च से एम.एल.श्रीवास्तव के घर से होते हुए मर्सी जॉर्ज घर तक।

वार्ड क्रमांक 15 :- आजाद नगर वार्ड

- उत्तर — अरुण यादव के घर से मुरारी सर के घर होते हुए डेकाटे घर तक।
 पूर्व — डेकाटे के घर से निर्मला स्कूल होते हुए के.सी.नायडू के घर तक।
 दक्षिण — के.सी.नायडू के घर से मदन साहू के घर तक।
 पश्चिम — मदन साहू के घर से एम.के.पांडे घर होते हुए अरुण यादव के घर तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2024

क्रमांक एफ 1-64/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-64/2024/18 दिनांक 29-07-2024 का अंग्रेजी अनवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2024

NOTIFICATION

No. F 1-64/2024/18.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of NAGAR PANCHAYAT CHIKHLAKASA, DIST - BALOD C.G.as per schedule given Below :-

- Divides NAGAR PANCHAYAT CHIKHLAKASA into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
- Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Shahid Gaiind Singh Ward
2	Guru Ghashidas Ward
3	Atal Ward
4	Hanuman Ward
5	Shahid veer Narayan Ward
6	Shiv Ward
7	Subhashchandra Ward
8	Jawahar Lal Ward
9	Lal Bahadur Shastri Ward
10	Indira Colony Ward
11	Mathura Nagar Ward
12	Tilak Nagar Ward
13	Sardar Patel ward
14	Swami Vivekanand Ward
15	Aazad Nagar Ward

Descriptions of the Boundries of ward of NAGAR PANCHAYAT CHIKHLAKASA

WARD NO. 01 SHAHID GAIND SINGH WARD

North	:-	From Chamru Ram Sahu house to Pradeep Gangboir poultry farm.
East	:-	From Pradeep Gangboir poultry farm to Than Singh's house.
South	:-	From Than Singh house to the gov. high school via Ayurvedic Hospital.
West	:-	From gov. high school to Chamru Ram Sahu house.

WARD NO. 02 GURU GHASHIDAS WARD

North	:-	Karutola Road to Railway Line to House Of Pushpa Meshram
East	:-	From House of Pushpa Meshram to Shop of Phool Singh Sori and A Cross Road Karutola Blue Star Petrol Pump, A Cross drain Main Road to House of Uttamchand Jain.
South	:-	From House of Uttamchand Jain to Cement Concrete Road to from House of Shivdas Kambley.
West:-		From House of Shivdas Kambley to Railway Line to Agriculture Land to Karutola Road from Railway Line.

WARD NO. 03 ATAL WARD

North	:-	Beside of Muktidham Near Main Road side of drain to House Of Gaindu Halba.
East :-		From House of Gaindu Halba to Kh. No. 323 Agriculture Land of Side to Nagar Panchayat Across Road of Chikhlakasa Road to Side of drain to Pashine Poultry Farm.
South	:-	Pashine Poultry Farm to House of Ram Eng.House from, Main Road to House of Shiddhi Vinayak compost seeds shop.
West	:-	Main Road to Shiddhi Vinayak compost seeds shop to Jyoti hospital, Balod Road Corner and A Cross of Atal Chowk Near Main Road, beside Muktidham.

WARD NO. 04 HANUMAN WARD

North :-		From House of Kamlesh Latiya Kh. No. 426 Agriculture Land to house of Jagram urvasha According to House of Rameshchand jain.
East :-		From House of Rameshchand Jain According to House of Santosh Kumar Dewangan.
South :-		From House of Santosh Kumar Dewangan, Chikhlakasa Basti to House of Mahendra Singh Broka According to located Kala Manch Near by Halba Bhavan .
West:-		Halba Bhavan Chikhlakasa Basti to HanumanMandir Nagar Panchayat Complex According to near to Nala Kh. No. 340 to 426 House of Kamlesh Latiya.

WARD NO. 05 SAHID VEERNARAYAN WARD

North	:-	From House of Dhanjay Arya Kh. No. 460 to Kh. No.1397 to Agriculture Land According to Naya Talaab Up to the Crossing House of Jage Singh Tekam.
East :-		From Jage Singh Tekam house to Kh. No. 860 to 1021 Agriculture Land House of the Kriparam Urvasha.
South	:-	From House of the Kriparam urvasha Near Shiv Mandir House of Devilal sahu.
West	:-	Near Shiv Mandir House of Devilal to House of According to House of Dhanjay Arya.

WARD NO. 06 SHIV WARD

North	:-	Government school to cement concrete Road corner to Corner Santosh Kirana Stores According to House of Nand Kumar Kureti.
East	:-	From House of Nand Kumar Kureti a Cross Lane House of Akash Kirana.
South	:-	From House of Akash Kirana to W.B.M. Road Corner to Sankul Kendra Near by house of let. Ramchand Mashiya.
West	:-	House of let. Ramchand Mashiya to Government school .

WARD NO. 07 SHUBHAS CHANDRA WARD

North	:-	From Baran Singh Kharanshu house on the bank of the drain via Shas Naveen Girls Primary School to Gangaram Dhuvanshi house.
East	:-	From Gangaram Dhuvanshi's house to Jagdish Prasad house.
South	:-	From Jagdish Prasad house to Chandrashekhar Kothari house via Haat Bazaar.
West	:-	From Chandrashekhar Kothari house via Khasra No. 334 and 336 to Baran Singh Kharanshu house on the bank of the drain.

WARD NO. 08 JAWAHARLAL WARD

North	:-	From House of Amarjeet Saini Kh.No.1360 to 1497 Agriculture Land Corner to Nala to Barsatola, House of Krishna Yadav.
East	:-	Barsatola to House of Krishna Yadav to Kh. No. 1352 to 1227, House Of Gaind lal Sharma
South	:-	House Of Gaindlal Sharma to B.S.P.2D. type Quater No. 23, Infront Of House of Surjeet Kaur.
West:-		From House of Surjeet Kaur Kh. No.1252/4 to Kh.No. 1223, House of Amarjeet Saini.

WARD NO. 09 LAL BAHADUR SHASTRI WARD

North	:-	From Idgah Kabristan to Kh. No. 1220 to 1221, from Christan Kabristan.
East	:-	From Christan Kabristan to Kh. No. 1222 to 1228 from House of Kaushilya Bambeshwar.
South	:-	From House of Kaushilya Bambeshwar to B.S.P. Sector Road to House of Gowardhan Motwani.
West	:-	From House of Gowardhan Motwani to Idgah Kabristan Kh. No. 1220.

WARD NO. 10 INDRA COLONY WARD

North	:-	From Government Hospital, Chikhalakasa to Women and Child Development Department Building. Via Jitendra Sharma house.
East	:-	From Jitendra Sharma house via S.C. Bagchi house to Saru Pisda house.
South	:-	From Saru Pisda house to Santokhi Prasad house.
West	:-	From Santokhi Prasad house via Jyoti Church to Government Hospital Chikhlakasa.

WARD NO. 11 MATHURA NAGAR WARD

North	:-	From Adarsh Gauthan via Purushottam Patel's house to Anita Upadhyay house.
East	:-	From Anita Upadhyay house to Jagatram Patel's house via Naina Beauty Parlor and Akhilesh Jain farm
South	:-	From Jagatram Patel house, crossing the road through Ankalu Ram farm, till Suddhu Ram house.
West	:-	From Suddhu Ram house via Hanuman temple, on the banks of the drain, from Poshan Yadav house to Adarsh Gauthan.

WARD NO. 12 TILAK NAGAR WARD

North	:-	From Patel Timbers, Main Road to Brij Lal Bihari House.
East	:-	Khasra no. from the house of Brij Lal Bihari. From 484 to 494, via Bindu Tuli's house.
South	:-	From House of Bindu Tuli House to M.K.Reddy Shop.
West	:-	From M.K.Reddy Shop to Patel Timbers, Main Road.

WARD NO. 13 SARDAR PATEL WARD

North	:-	From SBI ATM to Sewa Oberoy Badi to Attar Singh House.
East	:-	From House of Attar Singh to Kh. No. 692 to 683 Agriculture Land to Manorama Bai Patel House.
South	:-	From House of Manorama Bai Patel House to Mojesh Bhavan.
West	:-	From House of Mojesh Bhavan to SBI ATM.

WARD NO. 14 SWAMI VIVEKANAD WARD

North :- From Mercy George house to Pathak Khatal.
 East :- Pathak via Khatal till Purobi Verma house.
 South :- From Purobi Verma house via Nirmala Shukla house to Marthoma Church
 West:- From Marthoma Church via M.L.Srivastava house to Mercy George house.

WARD NO. 15 AAZAD NAGAR WARD

North :- From Arun Yadav house to Decate house via Murari sir house.
 East :- From Decate house via Nirmala School to KC Naidu house.
 South :- From KC Naidu house to Madan Sahu house.
 West :- From Madan Sahu house via M.K. Pandey house to Arun Yadav house

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.